



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2810]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 2015/पौष 8, 1937

No. 2810]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 2015/PAUSA 8, 1937

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2015

**का.आ. 3531(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3072(अ) तारीख 5 दिसम्बर 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को; उत्तर प्रदेश राज्य के औरैया जिला में ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रचालन के लिए लोक प्रयोजन हेतु अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन “अमर उजाला” और “हिन्दुस्तान” दोनों में तारीख 27.02.2015 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ;

उक्त अधिनियम की धारा 20 (ड) की उप-धारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 (ड) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और, यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20 (ड) की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अनन्य रूप से सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

**अनुसूची**

उत्तर प्रदेश राज्य में प्रस्तावित विशेष रेलवे परियोजना ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए औरैया जिले के अन्दर संरचना सहित या उसके बिना आने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिले का नाम: औरैया

क्रम संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	हेक्टेअर/मीटर में क्षेत्रफल	भू स्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	बिधूना	(1) कमारा	921fe0	निजी	कृषि	0.0120	मूलचन्द्र पुत्र देवी दयाल।
		(2) नगरिया	416 fe0	निजी	कृषि	0.3580	राजकुमार, राम कुमार पुत्रगण अतवल सिंह, मो0 शफीक पुत्र अब्दुल रज्जाक।

[फा. सं. 2013/एल.एम.एल./12/7/ईस्टर्न कॉरीडोर/704]

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं-1)

**MINISTRY OF RAILWAY**

(RAILWAY BOARD)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th December, 2015

**S.O. 3531(E).**—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O.3072 (E) dated the 5th December 2014 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Auraiya in the State of Uttar Pradesh.

And whereas, the substance of the said notification was published in Amar Ujala and Hindustan, both dated the 27.02.2015 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objection has received by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the district of Auraiya in the State of Uttar Pradesh for the Special Railway Project of Eastern Dedicated Freight Corridor.

Name of District : Auraiyya

Serial Number	Name of the Taluka	Name of the village	Survey number	Area in hectares/ Square metres	Name of the land owner/ interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
(1)	Bidhuna	(1) Kamara	921 Me	0.0120	Mool Chandra S/o Devi Dayal.
33		(2) Nagariya	416 Mi	0.3580	Raaj Kumar, Ram Kumar s/o Awatal Singh, Mo Safik S/o Abdul Rajjak.

[F. No. 2013/LML/12/7/Easter Corridor/704]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land & Amenities-I)